



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष 1946 (श०)

(सं० पटना 1227) पटना, वृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर 2024

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

24 दिसम्बर 2024

सं० 18/वि०पा०-02-07/2024-20584/सा०प्र०—बिपार्ड में Data Driven Governance के तहत Bihar GenNext Lab (BGL) की स्थापना की गई है। इस लैब में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों, जिलों एवं भारत सरकार के विभागों से डाटा का संग्रहण किया जाना है।

2. राज्य प्रशिक्षण परिषद् की तृतीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिपार्ड द्वारा अधिष्ठापित बिहार GenNext Lab (BGL) में सभी विभागों के डाटा को सूचारु रूप से बिपार्ड के साथ साझा करने की प्रक्रिया को संस्थागत बनाया जाए, ताकि भविष्य में भी डाटा का प्रवाह बना रहे।

3. डाटा का स्रोत बिहार सरकार के सभी विभाग/जिलें है। सभी विभागों/जिलों द्वारा बिपार्ड से API Integration करते हुए बिपार्ड को सभी प्रकार के डाटा को साझा किया जाना अनिवार्य एवं बाध्यकारी होगा। इस प्रक्रिया को संस्थागत किया जाएगा ताकि सभी विभागों का डाटा BGL को Real-Time Basis पर उपलब्ध हो सकें।

4. बिपार्ड BGL का एक नोड मुख्य सचिव कार्यालय तथा एक नोड मुख्यमंत्री सचिवालय में स्थापित करेगा।

5. बिपार्ड सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों को भी BGL का एक नोड उपलब्ध करायेगा।

6. उपरोक्त कार्य हेतु सभी विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी एक नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए बिपार्ड को सूचित करेंगे।

आदेश से,
डॉ० बी० राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1227-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>